



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2010 (फाल्गुन 8, 1931)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2010 (PHALGUNA 8, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2010

सं. 85, दिनांक 28 जनवरी 2010—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)/05/डी (मेड) दिनांक 28 अक्टूबर 2005 यथा संशोधित के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
कैप्टन के पद पर (परख पर)

समिता एम कदम (डीएस-12326एच), 09 जनवरी 2009
थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
कैप्टन के पद पर (परख पर)

संदीप झांझरिया (डीएस-12774एक्स), एडी कोर, 08 जनवरी 2008 (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 08 जुलाई 2007 से दी जाती है।

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

28 जून 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है।

विशाल सहाय, (डीएस-12200एच) एडी कोर, 17 मार्च 2006 (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2005 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

05 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है।

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)/05/डी (मेड) दिनांक 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

अभिषेक सिंगला (डीएस-12313एल), 29 दिसम्बर 2008

तुषार जुनेजा (डीएस-12314एन), 30 दिसम्बर 2008

सतनाम सिंह (डीएस-12347वाई), 06 मार्च 2009

अनुपम गुप्ता (डीएस-12348एफ), 13 मार्च 2009

वरुण निश्चल (डीएस-12349के), 15 मार्च 2009

अमितोज सिंह (डीएस-12350वाई), 18 मार्च 2009

रोहित ठाकुर (डीएस-12351एफ), 20 मार्च 2009

कुणाल रावल (डीएस-12352के), 21 मार्च 2009

डी के तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

सेना शाखा

सं. 86, दिनांक 28 जनवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

गुरप्रीत कौर (एमआर-08831एन), एएमसी, 05 मार्च 2009

सोनल सिंह (एमआर-08834एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

विशाल मंगल (एमआर-08836एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

कमिन्दर बीर कौर (एमआर-08838एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

बेहेरा महेश (एमआर-08839ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

हरलीन चोपड़ा (एमआर-08840पी), एएमसी, 05 मार्च 2009

गीतांजली जैन (एमआर-08841एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

अंकुर देशवाल (एमआर-08842ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

इप्सिता साहु (एमआर-08843एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

फातिमा अब्बास हुसैनी (एमआर-08845एन), एएमसी, 05 मार्च 2009

गरवित बग्गा (एमआर-08846डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

मनिषा जिन्दल (एमआर-08848एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

देबाशीष सोम्या रंजन दास (एमआर-08849के), एएमसी, 05 मार्च 2009

अदिल अशरफ (एमआर-08850वाई), एएमसी, 05 मार्च 2009

जतिन्दर सिंह (एमआर-08851एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

श्रीकृष्णा प्रसाद पाण्डा (एमआर-08852के), एएमसी, 05 मार्च 2009

अशुतोष गुप्ता (एमआर-08853एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

गौतम कुमार वस्निक (एमआर-08854पी), एएमसी, 05 मार्च 2009

दीपांकर (एमआर-08855एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

शैलेन्द्रा प्रताप सिंह (एमआर-08857एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

हरप्रीत सिंह दिल्लोन (एमआर-08858एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

मोहम्मद सिज़ेन इकबाल (एमआर-08859एन), एएमसी, 05 मार्च 2009

प्रीति गुप्ता (एमआर-08860एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

अरुण कुमार एम (एमआर-08861एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

नीलाभ नयन (एमआर-08866के), एएमसी, 05 मार्च 2009

सकिब यासीन (एमआर-08867एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

रंकीन राज (एमआर-08869एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

विनीथ वी पी (एमआर-08870एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

नीरज शर्मा (एमआर-08873ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

यथार्थ दिक्षित (एमआर-08874एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

शफीन बाबु पी एस (एमआर-08875एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

लव कुमार तोमर (एमआर-08877डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

बेनजिय पाल के (एमआर-08878वाई), एएमसी, 05 मार्च 2009

महेन्द्र कुमार सिंह परिहार (एमआर-08880डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

मोहम्मद हाफिज आलम खान (एमआर-08881वाई), एएमसी, 05 मार्च 2009

चिन्मया प्रकाश (एमआर-08882एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

संजय सिंह रावल (एमआर-08883के), एएमसी, 05 मार्च 2009

सलिल कुमार गुप्ता (एमआर-08884एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

अंशुमान सिंह (एमआर-08889एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

अंजनी कुमार (एमआर-08890ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 87, दिनांक 29 जनवरी 2010--राष्ट्रपति महोदया, श्री जितेन्द्र कुमार मीना को दिनांक 17 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

एन के कश्मीरा

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 88, दिनांक 29 जनवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., पदोन्नति की तारीख

कर्नल के अरूण (एनआर-16486ए), 15 जून 2009

ले. कर्नल (टीएस) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

ले. कर्नल रोजमेरी (एनआर-16423एक्स), 27 दिसम्बर 2005

ले. कर्नल टी शीला (एनआर-17510एक्स), 29 दिसम्बर 2008

ले. कर्नल संगीता पुरी (एनआर-17361एक्स), 22 मई 2008

ले. कर्नल एली कुट्टी ओ जे (एनआर-17212एफ), 07 जून 2007

ले. कर्नल सी एस पारवती (एनआर-16691एफ), 01 दिसम्बर 2005

ले. कर्नल बिमला सिंह (एनआर-16245ए), 29 जून 2002

ले. कर्नल सोनाली घोषाल (एनआर-17413ए), 22 सितम्बर 2008

ले. कर्नल ए चैरियान (एनआर-17138एल), 11 जून 2007

ले. कर्नल अरविन्दर कौर (एनआर-17037एक्स), 30 अक्टूबर 2006

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

सेना शाखा

सं. 89, दिनांक 1 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

ए के पाण्डे (एमआर-06992एक्स), एएमसी, 06 जनवरी 2009

आर ए थोमबरे (एमआर-07013ए), एएमसी, 30 जून 2009

जसविन्दर सिंह (एमआर-07016एन), एएमसी, 30 जून 2009

अमित गांधी (एमआर-07017डब्ल्यू), एएमसी, 30 जून 2009

अमित कत्याल (एमआर-07018वाई), एएमसी, 30 जून 2009

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 90, दिनांक 1 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर सुनील कुमार (टीए-42121), (इंजीनियर टीए), 20 नवम्बर 2006

जय राज

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 91, दिनांक 2 फरवरी 2010--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

मेजर से लैफ्टि. कर्नल के पद पर

एम बी चौधरी (डीआर-10510पी), 16 मार्च 2009

दिनेश कुमार (डीआर-10533डब्ल्यू), 31 मार्च 2009

प्रसुन मुखोपाध्याय (डीआर-10512ए), 05 मई 2009

एस के डिल्लों (डीआर-10513एच), 06 मई 2009

कैप्टन से मेजर के पद पर

सतीश टी एस (डीआर-10603के), 05 सितम्बर 2008

रंगाराजन एच (डीआर-10578डब्ल्यू), 22 मार्च 2009

प्रशान्त अवस्थी (डीआर-10607ए), 22 मार्च 2009

मनोज कुमार (डीआर-10606एक्स), 06 दिसम्बर 2008

राहुल राय (डीआर-10577एन), 20 फरवरी 2009

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

सिरिगिरी वास आर (डीएस-12241एम), 26 सितम्बर 2008

जॉयदीप बसक (डीएस-12128एक्स), 18 अक्टूबर 2008

प्रवीण प्रदीप जे (डीएस-12124एच), 20 मार्च 2009

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के पद पर

टी शमानन्द सिंह (डीएस-12142के), 09 अप्रैल 2009

शादाव अहमद (डीएस-12147एच), 15 अप्रैल 2009

श्याम सखूजा (डीएस-12251डब्ल्यू), 16 अप्रैल 2009

विद्याधरण एस (डीएस-12252वाई), 19 अप्रैल 2009

चन्द्र प्रकाश (डीएस-12129ए), 21 अप्रैल 2009

रवि शंकर (डीएस-12130पी), 22 अप्रैल 2009

सेन्थिल कुमार सी (डीएस-12249वाई), 29 सितम्बर 2008

हेमा रामदास (डीएस-12126एम), 25 मार्च 2009

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 92, दिनांक 2 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

टेन्दु अजय कुमार (एमआर-07746वाई), एएमसी, 04 मार्च 2007

गुरप्रीत सिंह (एमआर-08403पी), एएमसी, 17 फरवरी 2008

धीरज कुमार (एमआर-08693एक्स), एएमसी, 12 अक्टूबर 2008

ज्योत्सना त्रिपाठी (एमआर-08727ए), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

उदयाकुमार आर (एमआर-08819एम), एएमसी, 17 मई 2009

अबराहम ललछाना चोन्छिम (एमआर-08826एच), एएमसी, 12 अक्टूबर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इन अधिकारियों से है रह किया जाता है)

विप्रा मंगला (एमआर-08033ए), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

राज रतन (एमआर-08060के), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

सुनील कुमार झाझाडिया (एमआर-08738एम), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

विवेक कुमार (एमआर-08758ए), एएमसी, 17 मई 2009

विवेन्द्र मलिक (एमआर-08025एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

सचेन्द्र बादल (एमआर-08031पी), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

आभा कुमारी (एमआर-08035एल), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

रितिक चक्रवर्ती (एमआर-08037डब्ल्यू), एएमसी, 02 जनवरी 2009

विनोद जी नायर (एमआर-08056एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

यशविन्दर कुमार (एमआर-08714एच), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

राहुल झा (एमआर-08697एन), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

गगनदीप सिंह (एमआर-08713ए), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

मोरे विजय कुमार कृष्णा, एस एम (एमआर-08703डब्ल्यू), एएमसी, 17 मई 2009

यादवीर गर्ग (एमआर-08699वाई), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

वानखडे नानाजी सिताराम (एमआर-08744ए), एएमसी, 19 अप्रैल 2009

रवि कपूर (एमआर-08756पी), एएमसी, 17 मई 2009

यश पांडे
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 93, दिनांक 3 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन डी के शर्मा (टीए-42393), इंजीनियर टीए, 12 अक्टूबर 2006

कैप्टन एन के सिद्धू (टीए-42400), इंजीनियर टीए, 12 अक्टूबर 2006

कैप्टन ए बी कुश (टीए-42401), इंजीनियर टीए, 12 अक्टूबर 2006

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 94, दिनांक 3 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अजीत सिंह (एमआर-08563पी), एएमसी, 06 फरवरी 2008

विवेक मैथ्यू फिलीप (एमआर-08633एच), एएमसी, 01 फरवरी 2009

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 95, दिनांक 4 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार रामा नंद (सं. 14398152के अब जेसी-300495डब्ल्यू), 10 जुलाई 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार ऐश मोहम्मद खान (सं. 14386305डब्ल्यू अब जेसी-300496वाई), 22 मई 2008/01 मई 2008 *

हवलदार गावडे जालंदर तूकाराम (सं. 14499639वाई अब जेसी-300497एफ), 12 जून 2008/01 जून 2008 *

बीएचएम परमजीत सिंह (सं. 15100127के अब जेसी-300498के), 12 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14387129डब्ल्यू अब जेसी-300499एम), 16 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार भिमैया (सं. 14387838एल अब जेसी-300500डब्ल्यू), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार उत्तम साह (सं. 1414406071एफ अब जेसी-300501डब्ल्यू), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14385954एफ अब जेसी-300502एफ), 16 जुलाई 2008/16 जून 2008 *

हवलदार खूशाल सिंह (सं. 13978897एक्स अब जेसी-300503के), 16 जुलाई 2008/16 जून 2008 *

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 14361635एल अब जेसी-300504एम), 11 अगस्त 2008/29 जून 2008 *

हवलदार अतनू कुमार घोष (सं. 15108681के अब जेसी-300505पी), 08 अगस्त 2008/29 जून 2008 *

हवलदार पी मुरुगेशन (सं. 14367533के अब जेसी-300506एक्स), 01 जुलाई 2008

बीएचएम श्री किसन (सं. 15100310एम अब जेसी-300507ए), 01 जुलाई 2008

बीएचएम कान सिंह जोधा (सं. 14385610डब्ल्यू अब जेसी-300508एच), 01 जुलाई 2008

आरएचएम राकेश कुमार रावत (सं. 14380946एम अब जेसी-300509एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार भूपाल सिंह (सं. 14388181एल अब जेसी-300510ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार पन्ना लाल लाखरा (सं. 14388245एल अब जेसी-300511एच), 01 जुलाई 2008

बीएचएम अनिल कुमार मिश्रा (सं. 14376980पी अब जेसी-300512एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार मदन सिंह लतवाल (सं. 14384855ए अब जेसी-300513एन), 26 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

बीएचएम सुबे सिंह (सं. 14368648के अब जेसी-300514डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

बीएचएम भैरव नाथ सिंह यादव (सं. 14388573वाई अब जेसी-300515वाई), 04 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार एस ध्यालन (सं. 15101926एम अब जेसी-300516एफ), 01 अगस्त 2008

बीएचएम श्री जनम सिंह खुशवाह (सं. 15101676डब्ल्यू अब जेसी-300517के), 01 अगस्त 2008

बीएचएम नारायण दास गंगवार (सं. 15101885एन अब जेसी-300518एम), 01 अगस्त 2008

हवलदार कैलाश चंद्र साहू (सं. 14387515एच अब जेसी-300519पी), 01 अगस्त 2008

बीएचएम बलराज सिंह (सं. 14398445पी अब जेसी-300520के), 01 अगस्त 2008

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 14399345एच अब जेसी-300521एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार अमर सिंह (सं. 14392780एच अब जेसी-300522पी), 01 अगस्त 2008

हवलदार मस्तान शेख (सं. 15108628वाई अब जेसी-300523एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार प्रणय कुमार भांजा (सं. 15108725डब्ल्यू अब जेसी-300524ए), 01 सितम्बर 2008

हवलदार प्रेम दास राजे (सं. 14395974डब्ल्यू अब जेसी-300525एच), 01 सितम्बर 2008

आरएचएम प्रजेश बी (सं. 15763451एन अब जेसी-300526एल), 02 सितम्बर 2008

हवलदार स्योकरन सिंह (सं. 15108938के अब जेसी-300527एन), 01 सितम्बर 2008

हवलदार राउल शांताराम (सं. 15108944एक्स अब जेसी-300528डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

आरएचएम सुखविंदर (सं. 15765844एच अब जेसी-300529वाई),
04 सितम्बर 2008

हवलदार नरेश सिंह (सं. 15102608पी अब जेसी-300530एन),
20 जून 2008/01 अप्रैल 2008 *

बीएचएम आर श्रीनिवासन (सं. 14384776एल अब जेसी-
300531डब्ल्यू), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार पुरुषोत्तम सिंह राठौर (सं. 14400940के अब जेसी-
300532वाई), 02 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

आरएचएम मांगे राम (सं. 15100622एच अब जेसी-300533एफ),
12 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

बीएचएम हरीदासन ए के (सं. 14494309डब्ल्यू अब
जेसी-300534के), 17 जुलाई 2008/08 जून 2008 *

बीएचएम अरविंद कुमार सिंह (सं. 15386027एन अब जेसी-
300535एम), 14 अगस्त 2008/26 जून 2008 *

हवलदार खाडे लक्ष्मण बाबू (सं. 14497738एच अब जेसी-
300536पी), 06 अगस्त 2008/29 जून 2008 *

हवलदार जयदेव मसांता (सं. 14404146पी अब जेसी-300537एक्स),
30 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार पवन कुमार (सं. 14384963के अब जेसी-300538ए),
31 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार मार्कण्डेय तिवारी (सं. 14388717डब्ल्यू अब जेसी-
300539एच), 06 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 *

बीएचएम तेज पाल (सं. 14388634एल अब जेसी-300540एक्स),
13 अगस्त 2008/10 जुलाई 2008 *

हवलदार यशवंत सिंह (सं. 14393225एफ अब जेसी-300541ए),
01 अगस्त 2008

बीएचएम देवी प्रसाद (सं. 14384960डब्ल्यू अब जेसी-300542एच),
03 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार अप्पैया एच के (सं. 14490883एक्स अब जेसी-300543एल),
06 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम चमैल राम (सं. 14385213एक्स अब जेसी-300544एन),
13 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार ब्रह्म प्रकाश (सं. 15107461एन अब जेसी-300545डब्ल्यू),
14 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम गौतम हलदर (सं. 14404755वाई अब जेसी-300546वाई),
16 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार अरुण राव (सं. 14384143एक्स अब जेसी-300547एफ),
19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 14388055वाई अब जेसी-300548के),
19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम जय सिंह जांगीर (सं. 15100319एफ अब जेसी-
300549एम), 23 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम फुमन सिंह (सं. 14386351एल अब जेसी-300550एफ),
23 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार घन श्याम (सं. 14388289एच अब जेसी-300551के),
27 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार अजित कुमार यादव (सं. 15101338वाई अब जेसी-
300552एम), 02 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम रामानंद (सं. 15101625एच अब जेसी-300553पी),
02 सितम्बर 2008/03 अगस्त 2008 *

आरएचएम उदय सिंह (सं. 14392289ए अब जेसी-300554एक्स),
14 अगस्त 2008/10 अगस्त 2008 *

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 14389657वाई अब जेसी-300555ए),
01 अक्टूबर 2008/01 मई 2008 *

हवलदार अरुण कुमार (सं. 15761163एच अब जेसी-300556एच),
05 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

आरएचएम नर पाल (सं. 15765141एफ अब जेसी-300557एल),
06 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

आरएचएम प्रीतम सिंह गुर्जर (सं. 15765642एफ अब जेसी-
300558एन), 08 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

हवलदार मनीशेखरन एन (सं. 14396577के अब जेसी- 300559डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार किशन पाल (सं. 15105815एम अब जेसी-300560एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 14395661एक्स अब जेसी-300561एन),
01 सितम्बर 2008

हवलदार भे राम (सं. 14392650ए अब जेसी-300562डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार निलामेगन एम (सं. 15113013एक्स अब जेसी-300563वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार संतोष कुमार गुर्जर (सं. 14402551एन अब जेसी-
300564एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14392724के अब जेसी-300565के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार हम सिंह (सं. 14389322एफ अब जेसी-300566एम),
01 अक्टूबर 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार चिन्नाप्पन (सं. 14388707एम अब जेसी-300567पी),
02 जून 2008/01 जून 2008 *

बीएचएम महेन्द्र सिंह (सं. 14380505डब्ल्यू अब जेसी-
300568एक्स), 12 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार गोपा कुमार डी (सं. 14384797एफ अब जेसी-300569ए),
04 सितम्बर 2008/30 जून 2008 *

आरएचएम पलविन्दर सिंह (सं. 14385717एल अब जेसी-300570पी), 01 जुलाई 2008

बीएचएम विनोद कुमार (सं. 14382514डब्ल्यू अब जेसी-300571एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 14386299एन अब जेसी-300572ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार काशीनाथ सिंह यादव (सं. 14405590एक्स अब जेसी-300573एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार एस मुरुगेसन (सं. 14393278ए अब जेसी-300574एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार भास्कर प्रसाद पांडे (सं. 14390178के अब जेसी-300575एन), 05 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

बीएचएम मीर सिंह (सं. 14382729पी अब जेसी-300576डब्ल्यू), 15 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार सूखदेव सिंह (सं. 14387941डब्ल्यू अब जेसी-300577वाई), 18 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 14388361एन अब जेसी-300578एफ), 04 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008*

बीएचएम राम नाथ (सं. 14386354वाई अब जेसी-300579के), 01 सितम्बर 2008

हवलदार बस्वा विराना (सं. 14390680वाई अब जेसी-300580वाई), 01 सितम्बर 2008

बीएचएम वेनिगाला नेमेस्वरा राव (सं. 14385021ए अब जेसी-300581एफ), 01 सितम्बर 2008

हवलदार श्याम सिंह (सं. 14384381के अब जेसी-300582के), 01 सितम्बर 2008

बीएचएम चेथामराक्षण (सं. 14393411एक्स अब जेसी-300583एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 14393411एक्स अब जेसी-300584पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार विध्याधर उपाध्याय (सं. 14396438ए अब जेसी-300585एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 14382324के अब जेसी-300586ए), 01 सितम्बर 2008

हवलदार चन्द्रा कांथन एस (सं. 14388024वाई अब जेसी-300587एच), 01 सितम्बर 2008

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

ए वी बागुर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 96, दिनांक 04 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 26 अप्रैल 2007 से सेना चिकित्सा कोर से

अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

राजीव देव (एमएस-13620पी) (एमआर-08497एक्स), एएमसी, 23 जून 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 23 दिसम्बर 1998 से हो जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 दिसम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 97, दिनांक 05 फरवरी 2010--राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रविन्द्र प्रताप सिंह, सहायक कार्यकारी अभियंता का रक्षा मंत्रालय के ईएमई कोर में 30 जुलाई 2009 (अपराह) से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

राष्ट्रपति द्वारा श्री विजय चौधरी, सहायक कार्यकारी अभियंता का रक्षा मंत्रालय के ईएमई कोर में 19 नवम्बर 2008 (अपराह) से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

एन के कश्मीरा

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 98, दिनांक 05 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

समयपूर्व निवृत्ति

डीआर-10290डब्ल्यू ब्रिगे एचजी गार्गे, 15 अप्रैल 2009

डीआर-10401एच कर्नल पी सुरेश मेनन, 15 मई 2009(एएन)

डी के तनेजा
मेजर जनरल एडीजीडीएस

थल सेना शाखा

सं. 99, दिनांक 08 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जनवरी 2009 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आईसी-30818 कर्नल(टीएस) परमजीत सिंह गिल, एसी

आईसी-30695 कर्नल सुनील दत्ता, इन्फैन्ट्री

आईसी-31099 कर्नल अनुपम जेटली, एएडी

आईसी-31357 कर्नल सरप्रताप सिंह, एएससी

आईसी-31547 कर्नल (टीएस) तेज बहादुर सिंह पनगटे, इन्फैन्ट्री

आईसी-31682 कर्नल (टीएस) निरंजन प्रसाद सिंह, इन्ट कोर

आईसी-31693 कर्नल कृष्ण कुमार सबरवाल, एओसी

आईसी-31746 कर्नल (टीएस) सतवन्त सिंह, आर्टी

आईसी-31748 कर्नल (टीएस) परविन्दर जीत सिंह अटवा, इन्फैन्ट्री

आईसी-31816 कर्नल (टीएस) मनोज मोड़क, आर्टी

आईसी-31880 कर्नल राजीव मनाली, एसी

आईसी-34075 कर्नल रूपेन्द्र सिंह परमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-34103 कर्नल हरीश सोनी, एओसी

आईसी-34107 कर्नल भूपिन्दर सिंह सिद्धू, एसी

आईसी-34132 कर्नल (टीएस) हेमन्ता कुमार दास, इन्फैन्ट्री

आईसी-34246 कर्नल प्रदीप कुमार बोरोडोली, इन्फैन्ट्री

आईसी-34463 ले कर्नल परमजीत सिंह मरवाह, आर्टी

आईसी-34511 कर्नल विनोद कुमार बजाज, एएडी

आईसी-34865 कर्नल राजेन्द्र कुमार सिंह, एसी

आईसी-34979 कर्नल अशोक कुमार बरूआ, आर्टी

आईसी-35229 कर्नल दिनेश कुमार नन्दा, इन्फैन्ट्री

आईसी-35423 कर्नल (टीएस) गनपाल सिंह, ईएमई

आईसी-35816 ले कर्नल हरीदास मंडल, ईएमई

आईसी-35824 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र कुमार, सिग्नल्स

आईसी-35835 कर्नल (टीएस) आनंद प्रकाश, सिग्नल्स

आईसी-36434 कर्नल अरूण कुमार तिवारी, आर्टी

आईसी-36746 कर्नल रणजीत सिंह, आर्टी

आईसी-37035 कर्नल मोहिन्दर सिंह, एओसी

आईसी-37040 ले कर्नल मलविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-37083 कर्नल रविन्दर सिंह चौपड़ा, इन्फैन्ट्री

आईसी-37110 कर्नल (टीएस) अरूण कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-37200 कर्नल भारत भूषण अतरे, एसी

आईसी-37234 कर्नल (टीएस) राज कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-37290 कर्नल (टीएस) शशांक गांगूली, आर्टी

आईसी-37321 कर्नल (टीएस) प्राणतिक सिरकार, इन्फैन्ट्री

आईसी-37402 कर्नल (टीएस) सतेन्द्र बुराधोकी, इन्फैन्ट्री

आईसी-37464 कर्नल जय प्रकाश सिंह, एसी

आईसी-38958 ले कर्नल सुकुमार सरकार, आर्टी

आईसी-39099 कर्नल (टीएस) विरेन्द्र रावत, एएडी

आईसी-39534 कर्नल (टीएस) उमेश चन्द्र दुबे, एएडी

आईसी-40126 कर्नल (टीएस) श्याम आनन्द झा, इन्फैन्ट्री

आईसी-40129 कर्नल (टीएस) समुन्द्र गुप्ता रॉय चौधरी, एसी

आईसी-40184 कर्नल (टीएस) चरण सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-40495 कर्नल (टीएस) प्रशांत कुमार दत्ता, सिग्नल्स

आईसी-40580 कर्नल (टीएस) अमल कुमार मजूमदार, इंजीनियर्स

आईसी-40678 कर्नल (टीएस) ब्रजेश कुमार सिन्हा, इंजीनियर्स

आईसी-40766 कर्नल (टीएस) प्रताप सिंह, एओसी

आईसी-40926 कर्नल सवाई लाल जनगिद, एएससी

आईसी-41200 ले कर्नल पारस राम, इन्फैन्ट्री

आईसी-41241 ले कर्नल रमेश चन्द्र जोशी, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-41426 ले कर्नल विरेन्द्र कुमार शर्मा, एएससी

आरसी-1071 मेजर सुरेन्द्र सिंह नारायण, ईएमई

आरसी-1121 मेजर कमलदेव सिंह जामवाल, एसी

एसएल-3364 कर्नल चानन सिंह ढिल्लो, इंजीनियर्स

एसएल-3483 ले कर्नल गन्धीवालसा बालाकृष्णा राव, सिग्नल्स

एसएल-3604 ले कर्नल बृन्दाबन गोराय, सिग्नल्स

एसएल-3647 ले कर्नल प्रदीप चन्द्र खाउन्ड, सिग्नल्स

एसएल-3682 ले कर्नल मरतन्द प्रसाद शर्मा, ईएमई
 एसएल-3683 ले कर्नल प्रकाश चन्द्र यादव, ईएमई
 एसएल-3809 ले कर्नल अशोक कुमार हतुआ, ईएमई
 एसएल-3852 ले कर्नल हेम राज, ईएमई
 एसएल-4041 ले कर्नल ए आनन्दा रेड्डी, आरओ
 आईसी-38247 कर्नल (टीएस) अवनिन्दा कुमार शर्मा, ईएमई
 आईसी-40439 कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र कुमार शर्मा, आर्टी
 राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 28 फरवरी 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना
 स्थाई कमीशन

आईसी-30813 कर्नल नरेन्द्र सिंह सामंत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31359 कर्नल अरूण खन्ना, इंजीनियर्स
 आईसी-31369 कर्नल अमरेश भटनागर, आर्टी
 आईसी-31429 कर्नल रमेश चन्द्र पाटिल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31670 कर्नल रामाकृष्णा पिल्लई सत्यन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31711 कर्नल योगेन्द्र कादियान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31849 कर्नल मनु भल्ला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31964 कर्नल सुनील कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-34041 कर्नल सुरेश कुमार जुनेजा, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-34100 कर्नल राकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34143 कर्नल (टीएस) किशोर सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34202 कर्नल (टीएस) बिजोयेन्द्रा कुमार बरोहमा, आर्टी
 आईसी-34223 कर्नल (टीएस) रथना पृथ्वीराजन, एसी
 आईसी-34345 कर्नल (टीएस) तेजपाल सिंह कोहली, एसी
 आईसी-34637 कर्नल (टीएस) मोहम्मद हैदर चौधरी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34940 कर्नल (टीएस) दलजीत सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35672 कर्नल सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-36727 कर्नल (टीएस) राजीव वर्मा, एसी
 आईसी-37058 कर्नल (टीएस) हेमन्त राज तिवारी, एएडी
 आईसी-37103 कर्नल (टीएस) रामदास शरदचन्द्र बूचे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37173 कर्नल (टीएस) नर बहादुर प्रधान, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-37217 कर्नल राजेश कुमार, आर्टी
 आईसी-37256 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह मानरल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37412 कर्नल (टीएस) बलजीत सिंह लौंगिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37483 कर्नल (टीएस) सेवा सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37489 कर्नल (टीएस) सोम दत्त पराशर, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-37734 कर्नल गुदुरू रविकुमार, ईएमई
 आईसी-38256 कर्नल (टीएस) प्राण मोहन, इंजीनियर्स
 आईसी-39071 कर्नल गगन पठानिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-39141 कर्नल गुरनाम सिंह, एओसी
 आईसी-39345 कर्नल (टीएस) दुर्गा लाल मीणा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-39482 कर्नल प्रताप सिंह रावैर, आर्टी
 आईसी-39720 ले कर्नल धरनी धर शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-39834 कर्नल (टीएस) विजय कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-40236 कर्नल (टीएस) रमा कान्ता पाण्डे, एएडी
 आईसी-40413 कर्नल किशन बहादुर थापा, आर्टी
 आईसी-40536 कर्नल (टीएस) रमेश चन्द्र गुप्ता, एओसी
 आईसी-40539 कर्नल (टीएस) ताशी धेनदुप भूतिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-40776 कर्नल (टीएस) शिव दयाल, एससी
 आईसी-40914 कर्नल (टीएस) महेन्द्र कुमार मिश्रा, एससी
 आईसी-41047 कर्नल (टीएस) कमल कुमार बरधान, इंजीनियर्स
 आईसी-41237 ले कर्नल ए एस मनोहरन, सिग्नल्स
 आईसी-41243 ले कर्नल उदय कुमार शर्मा, आर्टी
 एसएल-2953 कर्नल (टीएस) के के मदईअ, इंजीनियर्स
 एसएल-3194 कर्नल नमब्रत पलापाटि सनकुनि, इंजीनियर्स
 एसएल-3551 ले कर्नल नरपत सिंह रावैर, सिग्नल्स
 एसएल-3579 कर्नल रणवीर सिंह, क्यू एम
 एसएल-3732 ले कर्नल सोम नाथ, ईएमई
 एसएल-4040 ले कर्नल रण विजय सिंह, सिग्नल्स
 एसएल-4130 ले कर्नल जगदेव सिंह लनघे, क्यू एम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2009 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थाई कमीशन

आईसी-31512 कर्नल विक्रमादित्या शोमे, इन्फैन्ट्री
आईसी-31699 कर्नल (टीएस) रमन खुल्लर, एसी
आईसी-31813 कर्नल (टीएस) नाओराम रणजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-34010 कर्नल रणबीर सिंह बहादुरिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-34043 कर्नल (टीएस) निकुन्ज किशोर मिश्रा, एसी
आईसी-34058 कर्नल (टीएस) शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, ईएमई
आईसी-34088 कर्नल (टीएस) रमन नैयर पदमासेनन, आर्टी
आईसी-34109 कर्नल राम अवतार सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-34179 कर्नल (टीएस) देवेन्द्र प्रीत सिंह, एसी
आईसी-34192 कर्नल (टीएस) ललित मोहन पन्त, इन्फैन्ट्री
आईसी-34235 कर्नल (टीएस) परमजीत सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-34419 कर्नल राजीव माधव मोहन, इन्फैन्ट्री
आईसी-34475 कर्नल (टीएस) हरबीर सिंह चौहान, आर्टी
आईसी-34603 कर्नल (टीएस) कारथ शशीधरन, आर्टी
आईसी-34613 कर्नल बिनोदा बिहारी पटनायक, इन्फैन्ट्री
आईसी-34921 कर्नल वजीर सिंह देसवाल, एसी
आईसी-34932 कर्नल (टीएस) सुरेश चन्द्र त्यागी, इन्फैन्ट्री
आईसी-34983 कर्नल (टीएस) कमल भल्ला, इन्फैन्ट्री
आईसी-37130 कर्नल सीराम रविन्द्र नाथ, इंजीनियर्स
आईसी-37260 कर्नल (टीएस) दिनेश कुमार, आर्टी
आईसी-37508 कर्नल (टीएस) गोपाल कानल, आर्टी
आईसी-37558 कर्नल (टीएस) चौद बिहारी लाल, एओसी
आईसी-38223 कर्नल (टीएस) बलविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-38906 कर्नल (टीएस) किशन सिंह कलाकोटी, आर्टी
आईसी-39475 कर्नल (टीएस) सतनाम सिंह, आर्टी
आईसी-39678 कर्नल बिसवाजीत शोम, आर्टी
आईसी-39907 कर्नल (टीएस) ए के जनार्दन, आर्टी

आईसी-39983 कर्नल (टीएस) गोवरधन सिंह मानस, आर्टी
आईसी-40123 कर्नल (टीएस) हरी परमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-40272 कर्नल विश्वा मोहन प्रसाद, ईएमई
आईसी-40370 कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-40387 कर्नल प्रिया रन्जन पेन, एओसी
आईसी-40449 कर्नल (टीएस) भूपिन्द्र तलवार, एओसी
आईसी-40767 कर्नल (टीएस) मोहिन्दर कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-41394 ले कर्नल मारुति मल्लप्पा चव्हाण, सिग्नल्स
आईसी-41750 ले कर्नल रमेश चन्द शर्मा, इन्फैन्ट्री
आरसी-1062 मेजर बालकरण सिंह मान, आर्टी
आरसी-1099 मेजर खेम बहादुर गुरुंग, 4 जीआर
एसएल-3076 ले कर्नल राघवन केनियन कन्डील, ईएमई
एसएल-3113 ले कर्नल सुदर्शन सिंह परमार, क्यू एम
एसएल-3564 कर्नल कश्मीर चन्द, ईएमई
एसएल-3625 ले कर्नल कृष्ण चन्द कटोच, सिग्नल्स
एसएल-3705 ले कर्नल प्रवाकर दास, सिग्नल्स
एसएल-3835 ले कर्नल पेरूमल सेमी शंकरप्पन, सिग्नल्स
एसएल-3891 ले कर्नल गोपी मायादताहिल, ईएमई
एसएल-3915 ले कर्नल आर सी ललोत्ता, सिग्नल्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 अप्रैल 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थाई कमीशन

आईसी-30847 कर्नल कुलजीत सिंह बाजवा, एसी
आईसी-31138 कर्नल (टीएस) रघुजीत सिंह सिरौही, एसी
आईसी-31546 कर्नल (टीएस) माधवन चन्द्रशेखर, इन्फैन्ट्री
आईसी-31647 कर्नल राजीव कुमार नैय्यर, इन्फैन्ट्री
आईसी-31655 कर्नल संतोष कुमार पारिक, आर्टी
आईसी-31686 कर्नल (टीएस) राकेश भन्टी, इन्फैन्ट्री
आईसी-34022 कर्नल (टीएस) मनमीत सिंह, इन्ट कोर
आईसी-34025 कर्नल राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-34077 कर्नल (टीएस) गुरबक्श सिंह लाम्बा, आर्टी
 आईसी-34081 कर्नल (टीएस) बलेन चन्द्र दास, आर्टी
 आईसी-34429 कर्नल बलबीर सिंह राणावत, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-34466 कर्नल बह्नीन्द्र प्रताप सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34796 कर्नल कंवलजीत सिंह राणा, एओसी
 आईसी-34950 कर्नल (टीएस) गुरप्रीत सिंह बरार, एसी
 आईसी-35752 कर्नल (टीएस) विरेन्द्र सिंह यादव, 1 जीआर
 आईसी-36468 कर्नल देव कुमार राय, एओसी
 आईसी-36726 कर्नल (टीएस) रेवती प्रसाद राय, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-36738 कर्नल (टीएस) मोहिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-36764 कर्नल (टीएस) सत्यपाल सिंह सहरावत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-36806 कर्नल (टीएस) अरूण कुमार, एसी
 आईसी-37066 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र कुमार, सिग्नल्स
 आईसी-37187 कर्नल (टीएस) कंवर पुष्पिन्द्र सिंह राणा, 1 जीआर
 आईसी-37236 कर्नल (टीएस) जय प्रकाश, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37363 कर्नल (टीएस) जय प्रकाश ए, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37388 कर्नल महावीर सिंह निगानिआ, आर्टी
 आईसी-37471 कर्नल (टीएस) सुभाष चन्द्र शर्मा, एएससी
 आईसी-37480 कर्नल रवि मोहन मांडला, एओसी
 आईसी-37584 कर्नल चेरूवल्लू संकरन नैयर जयदेव, आर्टी
 आईसी-39054 कर्नल अरूण भण्डारकर, ईएमई
 आईसी-39326 कर्नल (टीएस) रूद्र नाथ पाण्डे, आर्टी
 आईसी-39405 कर्नल (टीएस) अमरीक सिंह, ईएमई
 आईसी-39489 कर्नल हर भोपिन्द्र सिंह, एएससी
 आईसी-40526 कर्नल (टीएस) असित कुमार सरकार, एएडी
 आईसी-40735 कर्नल मोहन सिंह सलारिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-41035 कर्नल (टीएस) मनोहर राजबा जगादले, आर्टी
 आईसी-41061 कर्नल (टीएस) परीमी वेन्कट रामा कृष्णा, इंजीनियर्स
 आईसी-41292 ले कर्नल जगजीत सिंह, इंजीनियर्स
 आईसी-41312 ले कर्नल जगदेव सिंह राणा, ईएमई
 एसएल-3223 ले कर्नल तूसर कान्ती भट्ट्याचार्य, सिग्नल्स

एसएल-3339, ले कर्नल एम भारत भूषण, आरओ
 एसएल-3345 ले कर्नल त्रिलोक सिंह, आरओ
 एसएल-3494 कर्नल धर्मारजन, सिग्नल्स
 एसएल-3659 ले कर्नल यज्ञा दत्त शर्मा, इंजीनियर्स
 एसएल-3697 ले कर्नल सुभाष कुमार, इंजीनियर्स
 एसएल-3731 ले कर्नल राम लाल राम, ईएमई
 एसएल-3744 ले कर्नल शीश राम यादव, सिग्नल्स
 एसएल-3770 ले कर्नल नरेन्द्र सिंह, क्यूएम
 एसएल-3778 ले कर्नल सुभाष राज दधवाल, क्यूएम
 एसएल-3964 ले कर्नल आर जयाचन्द्रन, ईएमई
 एसएल-3973 ले कर्नल रतिन्द्रनाथ डान, सिग्नल्स
 एसएल-4010 ले कर्नल सुरेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 एसएल-4038 ले कर्नल निर्मल सिन्हा, क्यूएम
 आरसी-1073 मेजर ब्रह्मरबार साहू, सिग्नल्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थाई कमीशन

आईसी-31006 कर्नल (टीएस) अजीत कुमार यादव, एसी
 आईसी-31696 कर्नल सदानन्द कृष्णन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31753 कर्नल डेरिक सेब्सटीयन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34024 कर्नल (टीएस) रवि चन्द्र वर्मा, आर्टी
 आईसी-34060 कर्नल (टीएस) इसन होवर, सिग्नल्स
 आईसी-34073 कर्नल टिक राम निअल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34082 कर्नल मारियागननाम सलवाराज, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34124 कर्नल (टीएस) बलवान सिंह अहलावत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34128 कर्नल (टीएस) जोन वडाके इनाचरिल जैकब, एसी
 आईसी-34233 कर्नल (टीएस) बरीन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-34506 कर्नल अनिल नोअल रे, एसी
 आईसी-34553 कर्नल मुथुस्वामी प्राणाथारथी हरन, एएडी
 आईसी-34626 कर्नल (टीएस) देवी दयाल शर्मा, एसी

आईसी-35156 कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र मनकोटिआ, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-35337 कर्नल (टीएस) मधु मोहन मैनी, एसी
 आईसी-35343 कर्नल (टीएस) जगदानन्द उपाध्याय, इंजीनियर्स
 आईसी-35876 कर्नल (टीएस) कुमुदेश्वर प्रताप सिन्हा, ईएमई
 आईसी-36888 कर्नल अशोक कुमार कटोच, आर्टी
 आईसी-37253 कर्नल (टीएस) इरशाद अहमद, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37283 कर्नल भास्कर पिल्लई रमेश, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37492 कर्नल गणपति दिनकरन, आर्टी
 आईसी-37509 कर्नल (टीएस) रविन्द्र वधवान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-38599 कर्नल (टीएस) सेलन दास, इंजीनियर्स
 आईसी-39086 कर्नल (टीएस) गणेश सिंह पोखारिया, सिग्नल्स
 आईसी-39502 कर्नल (टीएस) नारायण दास चौहान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-39878 कर्नल (टीएस) शीतल सिंह गौरया, एएससी
 आईसी-39892 कर्नल (टीएस) कान्ता प्रसाद, इन्फैन्ट्री
 आईसी-39935 कर्नल (टीएस) सतबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-40816 कर्नल (टीएस) विश्वानाथ कारद, इन्फैन्ट्री
 आईसी-40936 कर्नल चन्दरन एन पी, एएससी
 आईसी-41062 कर्नल (टीएस) मुदालियर सुरेश सुंदरम्, ईएमई
 आईसी-41221 ले कर्नल टोमी मनी, एसी
 आईसी-41331 ले कर्नल प्रसाद पी एस, इन्फैन्ट्री
 आईसी-41342 ले कर्नल ससीमोहन टी वी, आर्टी
 आईसी-41353 ले कर्नल अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
 एसएल-3309 कर्नल राजेन्द्र सिंह चीमा, एपीटीसी
 एसएल-3652 ले कर्नल पालोस के पी, आरओ
 एसएल-3681 ले कर्नल इक्कूरती मदनमोहन राव, ईएमई
 एसएल-3742 ले कर्नल कुन्जु कुन्जु जोन, सिग्नल्स
 एसएल-3780 ले कर्नल गुरमीत सिंह, आरओ
 एसएल-3817 ले कर्नल सतनाम सिंह, ईएमई
 एसएल-3935 ले कर्नल सरकामर सिंह, क्यूएम
 एसएल-3941 ले कर्नल शेलके साहेबराव पार्वती, ईएमई
 एसएल-4027 ले कर्नल शशीधरन नैयर पी जी, क्यूएम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थाई कमीशन

आईसी-30806 कर्नल हरिन्द्र सिंह ग्रेवाल, एसी
 आईसी-31095 कर्नल दिनेश चन्द्र तिवारी, एओसी
 आईसी-31096 कर्नल समर विजय सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31192 कर्नल (टीएस) जय मारिओ रेबेलो, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31728 कर्नल परापिल महादेवन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-31799 कर्नल (टीएस) दिल अफताब खान, एएडी
 आईसी-31805 कर्नल गुलशन सहदेव, इंजीनियर्स
 आईसी-31845 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र कुमार गहलोत, एओसी
 आईसी-31855 कर्नल (टीएस) प्रमोद कुमार शर्मा, आर्टी
 आईसी-34068 कर्नल लल्लन शंकर तिवारी, आर्टी
 आईसी-34120 कर्नल शशांक मेहता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34467 कर्नल (टीएस) मोहन प्रसाद नन्दा, एएडी
 आईसी-34525 कर्नल (टीएस) तेजेन्द्र सिंह, एएडी
 आईसी-34547 कर्नल (टीएस) राकेश कुमार सोनी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34611 कर्नल कैलाश दत्त, आर्टी
 आईसी-34906 कर्नल जसपाल सिंह गिल, आर्टी
 आईसी-34951 कर्नल (टीएस) मोहन सदाशिव सालुन्के, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35309 कर्नल लशकर सिंह रन्धावा, आर्टी
 आईसी-35356 कर्नल (टीएस) किशोर सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 आईसी-36734 कर्नल (टीएस) तेजिन्द्र प्रताप सिंह चीमा, एसी
 आईसी-36883 कर्नल (टीएस) सुनील कुमार लोहानी, सिग्नल्स
 आईसी-36955 कर्नल प्रभात रंजन, आर्टी
 आईसी-36990 कर्नल इन्द्र मणी पाठक, इंजीनियर्स
 आईसी-37108 कर्नल (टीएस) बहादुर सिंह, एएससी
 आईसी-37141 कर्नल (टीएस) सुनील कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37145 कर्नल (टीएस) इन्द्र पाल कोहली, एएससी
 आईसी-37243 कर्नल जूलीअस फ्रेड्रिक, आर्टी

आईसी-37269 कर्नल (टीएस) कृष्ण पाल सिंह, एएससी	एसएल-3974 ले कर्नल सतपाल सिंह, एपीटीसी	
आईसी-37439 कर्नल (टीएस) जसबीर सिंह, एएडी	आरसी-1061 मेजर शिव विजय सिंह, ईएमई	
आईसी-37493 कर्नल (टीएस) विनोद मनचन्दा, एसी		जयन्त चक्रवर्ती
आईसी-38245 कर्नल (टीएस) दिनेश चन्द्रा, इंजीनियर्स		उप निदेशक
आईसी-39891 कर्नल (टीएस) रामेश्वर लाल बिजरनिया, एएडी	-----	एम एस 7 ए
आईसी-40087 कर्नल (टीएस) योहानन आई, आर्टी	सेना शाखा	
आईसी-40369 ले कर्नल लाल बहादुर खत्री, इन्फैन्ट्री	सं. 100, दिनांक 8 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--	
आईसी-41051 कर्नल (टीएस) चन्द्र प्रकाश मिश्रा, सिग्नल्स	नियमित सेना	
आईसी-41315 कर्नल (टीएस) ईश्वर सिंह, इन्फैन्ट्री	स्थायी कमीशन	
आईसी-41383 कर्नल (टीएस) शिव प्रसाद मौर्य, इन्फैन्ट्री	मेजर से ले कर्नल के पद पर	
आईसी-41418 कर्नल (टीएस) सी सुकुमार राजू, एएससी	शुद्धि-पत्र	
एसएल-2650 कर्नल (टीएस) अधीप मजूमदार, एपीटीसी	भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में सुमन सोनी (एमआर-06492ए), एएमसी, की पदोन्नति	
एसएल-3110 ले कर्नल होशियार सिंह, क्यूएम	के स्थान पर	यह पड़ा जाए
एसएल-3409 ले कर्नल के एस योहानन, ईएमई	09.09.2002	09.03.2002
एसएल-3576 ले कर्नल विजयन के टी, ईएमई	कप्तान से मेजर के पद पर	
एसएल-3611 ले कर्नल कृष्ण देव, सिग्नल्स	शुद्धि-पत्र	
एसएल-3640 ले कर्नल हरदेव सिंह, ईएमई	भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 दिसम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में राजीव देव (एमएस-13620पी), (एमआर-08497एक्स), एएमसी, की पदोन्नति	
एसएल-3641 ले कर्नल जानू कृष्णा मूर्ति, इंजीनियर्स	के स्थान पर	यह पड़ा जाए
एसएल-3674 ले कर्नल जोसफ ओ जे, ईएमई	23.06.2003	23.12.2002
एसएल-3741 ले कर्नल कलमाकर विश्वनाथ तुलसीराम, सिग्नल्स		
एसएल-3807 ले कर्नल एस नेदूमचेझीयन, आरओ		
एसएल-3868 ले कर्नल नोबाहार सिंह, सिग्नल्स		यश पांडे
एसएल-3920 ले कर्नल कुलवीर सिंह, सिग्नल्स		ब्रिगेडियर
		उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th February 2010

ARMY BRANCH

No. 85, the 28th Jan 2010—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79 as amended and GoI MoD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

DS-12326H (Ms) Samita M Kadam, 09 Jan 2009

The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

DS-12274X Sandeep Jhahria, AD Corps, 08 Jan 2009

[With seniority for pay and promotion from 08 Jul 2007 (includes 06 months ante date for paid job of a Lecturer in People's College of Dental Sciences & Research Centre, Bhanpur, Bhopal during the period from 03-02-2007 to 02-01-2008, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 28 Aug 2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

DS-12200H Vishal Sahai, AD Corps, 17 Mar 2006

[With seniority for pay and promotion from 17 Sep 2005 (includes 06 months ante date for paid job of a Lecturer in People's College of Dental Sciences & Research Centre, Bhanpur, Bhopal during the period from 15-01-2004 to 10-03-2006, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 05 Apr 2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointments for a period of 05 years under 15/79 as amended and GoI MoD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

DS-12313L Abhishek Singla, 29 Dec 2008

DS-12314N Tushar Juneja, 30 Dec 2008

DS-12347Y Satnam Singh, 06 Mar 2009

DS-12348F Anupam Gupta,, 13 Mar 2009

DS-12349K Varun Nischal, 15 Mar 2009

DS-12350Y Amitoj Singh, 18 Mar 2009

DS-12351F Rohit Thakur, 20 Mar 2009

DS-12352K Kunal Rawal, 21 Mar 2009

DK TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 86, dated 28th Jan 2010—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt (On Probation)

Gurpreet Kaur (MR-08831N), AMC, 05 Mar 2009

Sonal Singh (MR-08834F), AMC, 05 Mar 2009

Vishal Mangal (MR-08836M), AMC, 05 Mar 2009

Kaminder Bir Kaur (MR-08838X), AMC, 05 Mar 2009

Behera Mahesh (MR-08839A), AMC, 05 Mar 2009

Harleen Chopra (MR-08840P), AMC, 05 Mar 2009

Gitanjali Jain (MR-08841X), AMC, 05 Mar 2009

Ankur Deshwal (MR-08842A), AMC, 05 Mar 2009

Ipsita Sahoo (MR-08843H), AMC, 05 Mar 2009

Fatima Abbas Husainy (MR-08845N), AMC, 05 Mar 2009

Garvit Bagga (MR-08846W), AMC, 05 Mar 2009

Manisha Jindal (MR-08848F), AMC, 05 Mar 2009

Debasheesh Soumya Ranjan Das (MR-08849K), AMC, 05 Mar 2009

Adil Ashraf (MR-08850Y), AMC, 05 Mar 2009

Jatinder Singh (MR-08851F), AMC, 05 Mar 2009

Srikrishna Prasad Panda (MR-08852K), AMC, 05 Mar 2009

Ashutosh Gupta (MR-08853M), AMC, 05 Mar 2009

Gautam Kumar Vasnik (MR-08854P), AMC, 05 Mar 2009

Deepankar (MR-08855X), AMC, 05 Mar 2009

Shailendra Pratap Singh (MR-08857H), AMC, 05 Mar 2009

Harpreet Singh Dhillon (MR-08858L), AMC, 05 Mar 2009

Mohammad Schezan Iqbal (MR-08859N), AMC, 05 Mar 2009

Preeti Gupta (MR-08860H), AMC, 05 Mar 2009

Arun Kumar M (MR-08861L), AMC, 05 Mar 2009

Neelabh Nayan (MR-08866K), AMC, 05 Mar 2009

Saqib Yasin (MR-08867M), AMC, 05 Mar 2009

Rankeen Raj (MR-08869X), AMC, 05 Mar 2009

Vineeth VP (MR-08870M), AMC, 05 Mar 2009

Neeraj Sharma (MR-08873A), AMC, 05 Mar 2009

Yatharth Dixit (MR-08874H), AMC, 05 Mar 2009

Shafin Babu PS (MR-08875L), AMC, 05 Mar 2009

Love Kumar Tomar (MR-08877W), AMC, 05 Mar 2009

Benjith Paul K (MR-08878Y), AMC, 05 Mar 2009

Mahendra Kumar Singh Parihar (MR-08880W), AMC, 05 Mar 2009

Mohd Hafiz Alam Khan (MR-08881Y), AMC, 05 Mar 2009

Lt Chinmaya Prakash (MR-08882F), AMC, 05 Mar 2009

Lt Sanjay Singh Rawal (MR-08883K), AMC, 05 Mar 2009

Lt Salil Kumar Gupta (MR-08884M), AMC, 05 Mar 2009

Lt Anshuman Singh (MR-08889L), AMC, 05 Mar 2009

Lt Anjani Kumar (MR-08890A), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 87, dated 29th Jan 2010—The President is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar Meena to the grade of Assistant Executive Engineer with effect from 17 Aug 2009 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

He will remain on probation for a period of two years.

NK KASHMIRA

Under Secy

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

No. 88, dated 29th Jan 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers

with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Col K Arun (NR-16486A), 15 Jun 2009

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Lt Col Rosemary (NR-16423X), 27 Dec 2005

Lt Col T Sheela (NR-17510X), 29 Dec 2008

Lt Col Sangita Puri (NR-17361X), 22 May 2008

Lt Col Aleykutty OJ (NR-17212F), 07 Jun 2007

Lt Col CS Parvathi (NR-16691F), 01 Dec 2005

Lt Col Bimla Singh (NR-16245A), 29 Jun 2002

Lt Col Sonali Ghosal (NR-17413A), 22 Sep 2008

Lt Col A Cherian (NR-17138L), 11 Jun 2007

Lt Col Arvinder Kaur (NR-17037X), 30 Oct 2006

T PADMINI

Maj Gen

Addl. DGMNS

ARMY BRANCH

No. 89, dated 01st Feb 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

AK Pandey (MR-06992X), AMC, 06 Jan 2009

RA Thombre (MR-07013A), AMC, 30 Jun 2009

Jaswinder Singh (MR-07016N), AMC, 30 Jun 2009

Amit Gandhi (MR-07017W), AMC, 30 Jun 2009

Amit Katyal (MR-07018Y), AMC, 30 Jun 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 90, dated 01st Feb 2010—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Sunil Kumar (TA-42121), Engr (TA), 20 Nov 2006

JAI RAJ

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 91, dated 2nd February, 2010—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

DR-10510P MB Chowdhuri, 16 Mar 2009

DR-10533W Dinesh Kumar, 31 Mar 2009

DR-10512A Prasun Mukhopadhyay, 05 May 2009

DR-10513H (Ms) SK Dhillon, 06 May 2009

Capt to be Major

DR-10603K Satisha TS, 05 Sep 2008

DR-10578W Rangarajan H, 22 Mar 2009

DR-10607A Prashant Awasthi, 22 Mar 2009

DR-10606X Manoj Kumar, 06 Dec 2008

DR-10577N Rahul Rai, 20 Feb 2009

The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantive Major

DS-12241M Srigirivas R, 26 Sep 2008

DS-12128X Joydip Basak, 18 Oct 2008

DS-12124H Pravin Prathip J, 20 Mar 2009

DS-12142K T Shamananda Singh, 09 Apr 2009

DS-12147H Shadab Ahmed, 15 Apr 2009

DS-12251W Shyam Sakhuja, 16 Apr 2009

DS-12252Y Vidhyadharan S, 19 Apr 2009

DS-12129A Chander Prakash, 21 Apr 2009

DS-12130P Ravi Shanker, 22 Apr 2009

DS-12249Y Senthil Kumar C, 29 Sep 2007/29 Sep 2008

DS-12126M (Ms) Hema Ramdas, 16 Dec 2004/ 25 Mar 2009

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 92, dated 2nd February 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Tentu Ajai Kumar (MR-07746Y), AMC, 04 Mar 2007

Gurpreet Singh (MR-08403P), AMC, 17 Feb 2008

Dheeraj Kumar (MR-08693X), AMC, 12 Oct 2008

Jyotsna Tripathi (MR-08727A), AMC, 30 Dec 2008

Udhayakumar R (MR-08819M), AMC, 17 May 2009

To be Major

Abraham Lal Chhana Chawnchhim (MR-08826H), AMC, 12 Oct 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 04 Apr 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Capt to be Major

Vipra Mangla (MR-08033A), AMC, 30 Dec 2008

Raj Ratan (MR-08060K), AMC, 30 Dec 2008

Sunil Kumar Jhajharia (MR-08738M), AMC, 12 Apr 2009

Vivek Kumar (MR-08758A), AMC, 17 May 2009

Virender Malik (MR-08025F), AMC, 30 Dec 2008

Sachendra Badal (MR-08031P), AMC, 30 Dec 2008

Abha Kumari (MR-08035L), AMC, 30 Dec 2008

Ritwik Chakrabarti (MR-08037W), AMC, 02 Jan 2009

Vinod G Nair (MR-08056F), AMC, 30 Dec 2008

Yashvinder Kumar (MR-08714H), AMC, 12 Apr 2009

Rahul Jha (MR-08697N), AMC, 12 Apr 2009

Gagandeep Singh (MR-08713A), AMC, 12 Apr 2009

More Vijay Kumar Krishna, SM (MR-08703W), AMC, 17 May 2009

Yadvir Garg (MR-08699Y), AMC, 12 Apr 2009

Wankhede Tanaji Sitaram (MR-08744A), AMC, 19 Apr 2009

Ravi Kapoor (MR-08756P), AMC, 17 May 2009

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 93, dated 3rd February, 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Major

Capt DK Sharma (TA-42393) (Engr TA), 12 Oct 2006

Capt NK Sidhu (TA-42400) (Engr TA), 12 Oct 2006

Capt AB Kush (TA-42401) (Engr TA), 12 Oct 2006

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 94, dated 3rd February, 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Ajit Singh (MR-08563P), AMC, 06 Feb 2008

Vivek Mathew Philip (MR-08633H), AMC, 01 Feb 2009

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 95, dated 4th February, 2010—The President is pleased to make the following appointments/promotions :—

REGULAR ARMY
CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Rama Nand (No. 14398152K now JC-300495W), 10 Jul 2008/01 Mar 2008*

BHM Aish Mohamad Khan (No. 14386305W now JC-300496Y), 22 May 2008/01 May 2008*

Hav Gavade Jalander Tukaram (No. 14499639Y now JC-300497F), 12 Jun 2008/01 Jun 2008*

BHM Paramjit Singh (No. 15100127K now JC-300498K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Uttam Singh (No. 14387129W now JC-300499M), 16 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Bheemaiah (No. 14387838L now JC-300500W), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Uttam Saha (No. 14406071F now JC-300501Y), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Surendra Singh (No. 14385954F now JC-300502F), 16 Jul 2008/16 Jun 2008*

Hav Khushal Singh (No. 13978897X now JC-300503K), 16 Jul 2008/16 Jun 2008*

Hav Ajmer Singh (No. 14381635L now JC-300504M), 11 Aug 2008/29 Jun 2008*

Hav Atanu Kumar Ghosh (No. 15108681K now JC-300505P), 08 Aug 2008/29 Jun 2008*

Hav P Murugesan (No. 14367533K now JC-300506X), 01 Jul 2008

BHM Shri Kishan (No. 15100310M now JC-300507A), 01 Jul 2008

BHM Kan Singh Jodha (No. 14385610W now JC-300508H), 01 Jul 2008

RHM Rakesh Kumar Rawat (No. 14380946M now JC-300509L), 01 Jul 2008

Hav Bhupal Singh (No. 14388181L now JC-300510A), 01 Jul 2008

Hav Panna Lal Lakhara (No. 14388245L now JC-300511H), 01 Jul 2008

BHM Anil Kumar Mishra (No. 14376980P now JC-300512L), 01 Jul 2008

Hav Madan Singh Latwal (No. 14384855A now JC-300513N), 26 Jul 2008/08 Jul 2008

BHM Sube Singh (No. 14368648K now JC-300514W), 01 Aug 2008

BHM Bhairava Nath Singh Yadava (No. 14388573Y now JC-300515Y), 04 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav S Dhayalan (No. 15101926M now JC-300516F), 01 Aug 2008

BHM Sri Janam Singh Kushawaha (No. 15101676W now JC-300517K), 01 Aug 2008

BHM Narayan Das Gangwar (No. 15101885N now JC-300518M), 01 Aug 2008

Hav Kailash Chandra Sahu (No. 14387515H now JC-300519P), 01 Aug 2008

BHM Balraj Singh (No. 14398445P now JC-300520K), 01 Aug 2008

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 14389345H now JC-300521M), 01 Jul 2008

Hav Amar Singh (No. 14392780H now JC-300522P), 01 Aug 2008

Hav Mastan Shaik (No. 15108628Y now JC-300523X), 01 Sep 2008

Hav Pranaya Kumar Bhanja (No. 15108725W now JC-300524A), 01 Sep 2008

Hav Prem Das Raje (No. 14395974W now JC-300525H), 01 Sep 2008

RHM Prajesh B (No. 15763451N now JC-300526L), 02 Sep 2008

Hav Syokaran Singh (No. 15108938K now JC-300527N), 01 Sep 2008

Hav Rawool Santa Ram (No. 15108944X now JC-300528W), 01 Sep 2008

RHM Sukhvinder (No. 15765844H now JC-300529Y), 04 Sep 2008

Hav Naresh Singh (No. 15102608P now JC-300530N), 20 Jun 2008/02 Apr 2008*

BHM R Seerivasan (No. 14384776L now JC-300531W), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Purushottam Singh Rathor (No. 14400904K now JC-300532Y), 02 Jul 2008/01 Jun 2008*

RHM Mange Ram (No. 15100622H now JC-300533F), 12 Jul 2008/01 Jun 2008*

BHM Haridasan AK (No. 14494309W Now JC-300534K), 17 Jul 2008/08 Jun 2008

BHM Arbind Kumar Singh (No. 14386027N now JC-300535M), 14 Aug 2008/26 Jun 2008*

Hav Khade Laxman Babu (No. 14497738H now JC-300536P), 06 Aug 2008/29 Jun 2008

Hav Jaydeb Masanta (No. 14404146P now JC-300537X), 30 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Pawan Kumar (No. 14384963K now JC-300538A), 31 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Markandey Tiwari (No. 14388717W now JC-300539H), 12 Aug 2008/01 Jul 2008*

BHM Tej Pal (No. 14388634L now JC-300540X), 13 Aug 2008/10 Jul 2008*

Hav Yashwant Singh (No. 14393225F now JC-300541A), 01 Aug 2008

BHM Devi Prasad (No. 14384960W now JC-300542H), 03 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Appaiah HK (No. 14490883X now JC-300543L), 06 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Chamail Ram (No. 14385213X now JC-300544N), 13 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Braham Prakash (No. 15107461N now JC-300545W), 14 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Gowtam Haldar (No. 14404755Y now JC-300546Y), 16 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Arun Rao (No. 14384143X now JC-300547F), 19 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Kewal Krishan (No. 14388055Y now JC-300548K), 19 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Jai Singh Jangir (No. 15100319F now JC-300549M), 23 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Phuman Singh (No. 14386351L now JC-300550F), 23 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Ghyan Shyam (No. 14388289H now JC-300551K), 27 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Ajeet Kumar Yadav (No. 15101338Y now JC-300552M), 02 Sep 2008/01 Aug 2008*

BHM Ramanand (No. 15101625H now JC-300553P), 02 Sep 2008/03 Aug 2008*

RHM Uday Singh (No. 14392289A now JC-300554X), 14 Aug 2008/10 Aug 2008*

Hav Gopal Singh (No. 14389657Y now JC-300555A), 01 Oct 2008/01 May 2008*

RHM Arun Kumar (No. 15761163H now JC-300556H), 05 Sep 2008/01 Sep 2008*

RHM Nar Pal (No. 15765141F now JC-300557L), 06 Sep 2008/01 Sep 2008*

RHM Preetam Singh Gurjar (No. 15765642F now JC-300558N), 08 Sep 2008/01 Sep 2008*

Hav Manisekaran N (No. 14396577K now JC-300559W), 01 Oct 2008

Hav Kishan Pal (No. 15105815M now JC-300560L), 01 Oct 2008

Hav Virendra Singh (No. 14395661X now JC-300561N), 01 Sep 2008

Hav Bhey Ram (No. 14392650A now JC-300562W), 01 Oct 2008

Hav Neelamegan M (No. 15113013X now JC-300563Y), 01 Oct 2008

Hav Santosh Kumar Gurjar (No. 14402551N now JC-300564F), 01 Oct 2008

Hav Rajbir (No. 14392724K now JC-300565K), 01 Oct 2008

Hav Ham Singh (No. 14389322F now JC-300566M), 01 Oct 2008/01 Apr 2008*

Hav Chinnappan (No. 14388707M now JC-300567P), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

BHM Mahender Singh (No. 14380505W now JC-300568X), 12 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Gopa Kumar D (No. 14384797F now JC-300569A), 04 Sep 2008/30 Jun 2008*

RHM Palwinder Singh (No. 14385717L now JC-300570P), 01 Jul 2008

BHM Vinod Kumar (No. 14382514W now JC-300571X), 01 Jul 2008

Hav Tarsem Singh (No. 14386299N now JC-300572A),
01 Jul 2008

Hav Kashinath Singh Yadav (No. 14405590X now JC-300573H), 01 Jul 2008

Hav S Muregesan (No. 14393278A now JC-300574L),
01 Aug 2008

Hav Bhaskar Prasad Pandey (No. 14390178K now JC-300575N), 05 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Mir Singh (No. 14382729P now JC-300576W),
15 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Sukhdev Singh (No. 14387941W now JC-300577Y),
18 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Udaiveer Singh (No. 14388361N now JC-300578F),
04 Sep 2008/01 Aug 2008*

BHM Ram Nath (No. 14386354Y now JC-300579K),
01 Sep 2008

Hav Basava Veerana (No. 14390680Y now JC-300580Y),
01 Sep 2008

BHM Vnigalla Nemeswara Rao (No. 14385021A now JC-300581F), 01 Sep 2008

Hav Shyam Singh (No. 14384381K now JC-300582K),
01 Sep 2008

BHM Chenthamarakshan (No. 14393411X now JC-300583M), 01 Sep 2008

Hav Balwinder Singh (No. 14391402X now JC-300584P),
01 Sep 2008

Hav Vidyadhar Upadhyay (No. 14396438A now JC-300585X), 01 Sep 2008

Hav Ranjit Singh (No. 14382324K now JC-300586A),
01 Sep 2008

Hav Chandra Kanthan S (No. 14388024Y now JC-300587H), 01 Sep 2008

*(Gtd seniority wef)

AV BAGUR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 96, dated 4th February 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 26 Apr 2007 and to grant his Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended.

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Rajeev Deo (MS-13620P) (MR-08497X), AMC, 23 Jun 1999

With seniority for pay and promotion wef 23 Dec 1998,

(this includes 06 months of ante date of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 08 Dec 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 97, dated 5th February 2010—The President is pleased to accept the technical resignation in respect of Shri Praveendra Pratap Singh, Assistant Executive Engineer in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 30 Jul 2009 (Afternoon).

The President is pleased to accept the technical resignation in respect of Shri Vijay Choudhary, Assistant Executive Engineer in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 19 Nov 2008 (Afternoon).

NK KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 98, dated 5th February 2010—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps officers to premature retire from Army Service at their own request w.e.f. the dates shown against their names :—

REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS PERMANENT COMMISSION

Premature Retirement

Brig HG Garge VSM, (DR-10290W), 15 Apr 2009

Col P Suesh Menon (DR-10401H), 15 May 2009 (AN)

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 99, dated 8th February 2010—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jan 2009 :—

Rank, Name, Pers No. & Arms

IC-30818 Col (TS) Paramjit Singh Gill, AC

IC-30695 Col Sunil Dutta, Inf

IC-31099 Col Anupam Jaitly, AAD

IC-31357 Col Sarpartap Singh, ASC
 IC-31547 Col (TS) Tej Bahadur Singh Pangtey, Inf
 IC-31682 Col (TS) Niranjana Prasad Singh, Int Corps
 IC-31693 Col Krishan Kumar Sabharwal, AOC
 IC-31746 Col (TS) Satwant Singh, Arty
 IC-31748 Col (TS) Parvinder Jeet Singh Atwa, Inf
 IC-31816 Col (TS) Manoj Modak, Arty
 IC-31880 Col Rajeev Mannali, AC
 IC-34075 Col Rupender Singh Parmar, Inf
 IC-34103 Col Harish Soni, AOC
 IC-34107 Col Bhupinder Singh Sidhu, AC
 IC-34132 Col (TS) Hemanta Kumar Das, Inf
 IC-34246 Col Prodip Kumar Borodoli, Inf
 IC-34463 Lt Col Paramjit Singh Marwaha, Arty
 IC-34511 Col Vinod Kumar Bajaj, AAD
 IC-34865 Col Rajendra Kumar Singh, AC
 IC-34979 Col Ashok Kumar Barua, Arty
 IC-35229 Col Dinesh Kumar Nanda, Inf
 IC-35423 Col (TS) Gunpal Singh, EME
 IC-35816 Lt Col Haridas Mandal, EME
 IC-35824 Col (TS) Narendra Kumar, Sigs
 IC-35835 Col (TS) Anand Prakash, Sigs
 IC-36434 Col Arun Kumar Tiwari, Arty
 IC-36746 Col Ranjit Singh, Arty
 IC-37035 Col Mohinder Singh, AOC
 IC-37040 Lt Col Malvinder Singh, Inf
 IC-37083 Col Ravinder Singh Chopra, Inf
 IC-37110 Col (TS) Aroon Kumar Singh, Inf
 IC-37200 Col Bharat Bhushan Atray, AC
 IC-37234 Col (TS) Raj Kumar, Inf
 IC-37290 Col (TS) Shashanka Ganguly, Arty
 IC-37321 Col (TS) Prantik Sircar, Inf
 IC-37402 Col (TS) Satender Burathoki, Inf
 IC-37464 Col Jai Prakash Singh, AC
 IC-38958 Lt Col Sukumar Sarkar, Arty
 IC-39099 Col (TS) Virendra Rawat, AAD
 IC-39534 Col (TS) Umesh Chandra Dubey, AAD
 IC-40126 Col (TS) Shyam Anand Jha, Inf
 IC-40129 Col (TS) Samundra Gupta Roy Chowdhury, AC

IC-40184 Col (TS) Charan Singh, Inf
 IC-40495 Col (TS) Prasanta Kumar Dutta, Sigs
 IC-40580 Col (TS) Amal Kumar Majumdar, Engrs
 IC-40678 Col (TS) Brajesh Kumar Sinha, Engrs
 IC-40766 Col (TS) Partap Singh, AOC
 IC-40926 Col Swai Lal Jangid, ASC
 IC-41200 Lt Col Paras Ram, Inf
 IC-41241 Lt Col Ramesh Chandra Joshi, Mech Inf
 IC-41426 Lt Col Verinder Kumar Sharma, ASC
 RC-1071 Maj Surinder Singh Narayan, EME
 RC-1121 Maj Kamaldev Singh Jamwal, AC
 SL-3364 Col Chanan Singh Dhillon, Engrs
 SL-3483 Lt Col Gandivalasa Balakrishna Rao, Sigs
 SL-3604 Lt Col Brindaban Gorai, Sigs
 SL-3647 Lt Col Pradip Chandra Khound, Sigs
 SL-3682 Lt Col Martand Prasad Sharma, EME
 SL-3683 Lt Col Prakash Chandra Yadav, EME
 SL-3809 Lt Col Ashok Kumar Hatua, EME
 SL-3852 Lt Col Hem Raj, EME
 SL-4041 Lt Col A Ananda Reddy, RO
 IC-38247 Col (TS) Awanindra Kumar Sharma, EME
 IC-40439 Col (TS) Surendra Kumar Sharma, Arty

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 28 Feb 2009.

Pers No., Rank, Name and Arms

IC-30813 Col Narendra Singh Samant, Inf
 IC-31359 Col Arun Khanna, Engrs
 IC-31369 Col Amaresh Bhatnagar, Arty
 IC-31429 Col Ramesh Chandra Patial, Inf
 IC-31670 Col Ramakrishna Pillai Satyan, Inf
 IC-31711 Col Yogender Kadian, Inf
 IC-31849 Col Manu Bhalla, Inf
 IC-31964 Col Sunil Kumar, Engrs
 IC-34041 Col Suresh Kumar Juneja, Mech Inf
 IC-34100 Col Rakesh Sharma, Inf
 IC-34143 Col (TS) Kishore Singh, Inf
 IC-34202 Col (TS) Bijoyendra Kumar Brohma, Arty

IC-34223 Col (TS) Rathna Prithvirajan, AC
 IC-34345 Col (TS) Tejpal Singh Kohli, AC
 IC-34637 Col (TS) Mohammad Haider Chowdhury, Inf
 IC-34940 Col (TS) Daljeet Singh Gill, Inf
 IC-35672 Col Surinder Singh, Arty
 IC-36727 Col (TS) Rajeev Verma, AC
 IC-37058 Col (TS) Hemant Raj Tiwari, AAD
 IC-37103 Col (TS) Ramdas Sharadchandra Buche, Inf
 IC-37173 Col (TS) Nar Bahadur Pradhan, Mech Inf
 IC-37217 Col Rajesh Kumar, Arty
 IC-37256 Col (TS) Rajendra Singh Manral, Inf
 IC-37412 Col (TS) Baljit Singh Laungia, Inf
 IC-37483 Col (TS) Sewa Singh, Inf
 IC-37489 Col (TS) Som Dutt Parasher, Mech Inf
 IC-37734 Col Guduru Ravikumar, EME
 IC-38256 Col (TS) Pran Mohan, Engrs
 IC-39071 Col Gagan Pathania, Inf
 IC-39141 Col Gurnam Singh, AOC
 IC-39345 Col (TS) Durga Lal Meena, Inf
 IC-39482 Col (TS) Pratap Singh Rathore, Arty
 IC-39720 Lt Col Dharani Dhar Sarma, Inf
 IC-39834 Col (TS) Vijai Kumar, Engrs
 IC-40236 Col (TS) Rama Kant Pandey, AAD
 IC-40413 Col Kishan Bahadur Thapa, Arty
 IC-40536 Col (TS) Ramesh Chandra Gupta, AOC
 IC-40539 Col (TS) Tashi Dhendup Bhutia, Inf
 IC-40776 Col (TS) Shiv Dayal, ASC
 IC-40914 Col (TS) Mahendra Kumar Mishra, ASC
 IC-41047 Col (TS) Kamal Kumar Bardhan, Engrs
 IC-41237 Lt Col AS Manoharan, Sigs
 IC-41243 Lt Col Udai Kumar Sharma, Arty
 SL-2953 Col (TS) KK Madaiah, Engrs
 SL-3194 Col Nambrat Palappatte Sankunny, Engrs
 SL-3551 Lt Col Narpal Singh Rathore, Sigs
 SL-3579 Col Ranvir Singh, QM
 SL-3732 Lt Col Som Nath, EME
 SL-4040 Lt Col Ran Vijay Singh, Sigs
 SL-4130 Lt Col Jagdev Singh Langhe, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2009(AN).

Pers No., Rank, Name and Arms

IC-31512 Col Vikramaditya Shome, Inf
 IC-31699 Col (TS) Raman Khullar, AC
 IC-31813 Col (TS) Naorem Ranjit Singh, Inf
 IC-34010 Col Ranbir Singh Bhadauria, Inf
 IC-34043 Col (TS) Nikunja Kishore Mishra, AC
 IC-34058 Col (TS) Shailendra Singh Bisht, EME
 IC-34088 Col (TS) Raman Nair Padmasenan, Atry
 IC-34109 Col Ram Avtar Singh Yadava, Inf
 IC-34179 Col (TS) Devinder Preet Singh, AC
 IC-34192 Col (TS) Lalit Mohan Pant, Inf
 IC-34235 Col (TS) Paramjeet Singh Yadav, Inf
 IC-34419 Col Rajiv Madhav Mohan, Inf
 IC-34475 Col (TS) Harbir Singh Chauhan, Atry
 IC-34603 Col (TS) Karath Sasidharan, Atry
 IC-34613 Col Binoda Bihari Patnaik, Inf
 IC-34921 Col Wazir Singh Deswal, AC
 IC-34932 Col (TS) Suresh Chandra Tyagi, Inf
 IC-34983 Col (TS) Kamal Bhalla, Inf
 IC-37130 Col Siram Ravinder Nath, Engrs
 IC-37260 Col (TS) Dinesh Kumar, Arty
 IC-37508 Col (TS) Gopal Kanal, Arty
 IC-37558 Col (TS) Chand Behari Lal, AOC
 IC-38223 Col (TS) Balwinder Singh, Engrs
 IC-38906 Col (TS) Kishan Singh Kalakoti, Atry
 IC-39475 Col (TS) Satnam Singh, Atry
 IC-39678 Col Biswajit Shome, Atry
 IC-39907 Col (TS) AK Janardhanan, Atry
 IC-39983 Col (TS) Goverdhan Singh Manhas, Atry
 IC-40123 Col (TS) Hari Parmar, Inf
 IC-40272 Col Vishwa Mohan Prasad, EME
 IC-40370 Col (TS) Surinder Singh, Atry
 IC-40387 Col Priya Ranjan Pain, AOC
 IC-40449 Col (TS) Bhupinder Talwar, AOC
 IC-40767 Col (TS) Mohinder Kumar Sharma, Mech Inf
 IC-41394 Lt Col Marutimallappa Chavan, Sigs
 IC-41750 Lt Col Ramesh Chand Sharma, Inf
 RC-1062 Maj Balkaran Singh Mann, Arty

RC-1099 Maj Khem Bahadur Gurung, 4GR
 SL-3076 Lt Col Raghvan Kanian Kandyil, EME
 SL-3113 Lt Col Sudarshan Singh Parmar, QM
 SL-3564 Col Kashmir Chand, EME
 SL-3625 Lt Col Krishan Chand Katoch, Sigs
 SL-3705 Lt Col Pravakar Das, Sigs
 SL-3835 Lt Col Perumal Samy Sankarappan, Sigs
 SL-3891 Lt Col Gopi Mayadatahil, EME
 SL-3915 Lt Col RC Lalotra, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Apr 2009 (AN) :—

Pers No., Rank, Name and Arms

IC-30847 Col Kuljit Singh Bajwa, AC
 IC-31138 Col (TS) Raghujeet Singh Sirohi, AC
 IC-31546 Col (TS) Madhavan Chandrasekhar, Inf
 IC-31647 Col Rajiv Kumar Nayar, Inf
 IC-31655 Col Santosh Kumar Pareek, Arty
 IC-31686 Col (TS) Rakesh Bhanti, Inf
 IC-34022 Col (TS) Manmeet Singh, Inf Corps
 IC-34025 Col Rajendra Singh, Inf
 IC-34077 Col (TS) Gurbaksh Singh Lamba, Arty
 IC-34081 Col (TS) Balen Chandra Das, Arty
 IC-34429 Col Balbir Singh Ranawat, Mech Inf
 IC-34466 Col Brahminder Pratap Singh Gill, Inf
 IC-34796 Col Kanwaljit Singh Rana, AOC
 IC-34950 Col (TS) Gurpreet Singh Brar, AC
 IC-35752 Col (TS) Veerendra Singh Yadava, 1 GR
 IC-36468 Col Dev Kumar Roy, AOC
 IC-36726 Col (TS) Rewati Prasad Rai, Mech Inf
 IC-36738 Col (TS) Mohinder Singh, Inf
 IC-36764 Col Satyapal Singh Sahrawat, Inf
 IC-36806 Col (TS) Arun Kumar, AC
 IC-37066 Col (TS) Narinder Kumar, Sigs
 IC-37187 Col (TS) Kanwar Pushpinder Singh Rana, 1 GR
 IC-37236 Col (TS) Jai Prakash, Inf
 IC-37363 Col (TS) Jai Prakash A, Inf
 IC-37388 Col Mahavir Singh Nigania, Arty

IC-37471 Col (TS) Subhash Chander Sharma, ASC
 IC-37480 Col Ravi Mohan Mandla, AOC
 IC-37584 Col Cheruvully Sankaran Nair Jayadev, Arty
 IC-39054 Col Arun Bhandarkar, EME
 IC-39326 Col (TS) Rudra Nath Pandey, Arty
 IC-39405 Col (TS) Amrik Singh, EME
 IC-39489 Col Har Bhopinder Singh, ASC
 IC-40526 Col (TS) Asit Kumar Sarkar, AAD
 IC-40735 Col Mohan Singh Salaria, Inf
 IC-41035 Col (TS) Manohar Rajba Jagadale, Arty
 IC-41061 Col (TS) Parimi Venkata Rama Krishna, Engrs
 IC-41292 Lt Col Jagjit Singh, Engrs
 IC-41312 Lt Col Jagdev Singh Rana, EME
 SL-3223 Lt Col Tusar Kanti Bhattacharya, Sigs
 SL-3339 Lt Col M Bharath Bhushan, RO
 SL-3345 Lt Col Tarlok Singh, RO
 SL-3494 Col Dharmarajan, Sigs
 SL-3659 Lt Col Yagya Datt Sharma, Engrs
 SL-3697 Lt Col Subhash Kumar, Engrs
 SL-3731 Lt Col Ram Lal Ram, EME
 SL-3744 Lt Col Shis Ram Yadav, Sigs
 SL-3770 Lt Col Narinder Singh, QM
 SL-3778 Lt Col Subhash Raj Dadhwal, QM
 SL-3964 Lt Col R Jeyachandran, EME
 SL-3973 Lt Col Rathindranath Dawn, Sigs
 SL-4010 Lt Col Surinder Singh, Engrs
 SL-4038 Lt Col Nirmal Sinha, QM
 RC-1073 Maj Bhramarbar Sahoo, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2009 (AN).

Pers No., Rank, Name & Arms

IC-31006 Col (TS) Ajit Kumar Yadav, AC
 IC-31696 Col Sadanandam Krishan, Inf
 IC-31753 Col Deric Sebastian, Inf
 IC-34024 Col (TS) Ravi Chandra Verma, Arty
 IC-34060 Col (TS) Isen Hower, Sigs
 IC-34073 Col Tike Ram Nial, Inf

IC-34082 Col Mariagnanam Selvaraj, Inf
 IC-34124 Col (TS) Balwan Singh Ahlawat, Inf
 IC-34128 Col (TS) John Vadakke Ennacheril Jacob, AC
 IC-34233 Col (TS) Barindar Singh, Arty
 IC-34506 Col Anil Noel Rae, AC
 IC-34553 Col Muthuswami Pranatharthi Haran, AAD
 IC-34626 Col (TS) Devi Dayal Sharma, AC
 IC-35156 Col (TS) Surendra Mankotia, Mech Inf
 IC-35337 Col (TS) Madhu Mohan Maini, AC
 IC-35343 Col (TS) Jagda Nand Upadhyaya, Engrs
 IC-35876 Col (TS) Kumudeshwar Pratap Sinha, EME
 IC-36888 Col Ashok Kumar Katoch, Arty
 IC-37253 Col (TS) Irshad Ahmed, Inf
 IC-37283 Col Bhaskara Pillai Ramesh, Inf
 IC-37492 Col Ganapathy Dinakaran, Arty
 IC-37509 Col (TS) Ravinder Wadhawan, Inf
 IC-38599 Col (TS) Sailen Das, Engrs
 IC-39086 Col (TS) Ganesh Singh Pokhariya, Sigs
 IC-39502 Col (TS) Narain Dass Chauhan, Inf
 IC-39878 Col (TS) Sital Singh Goraya, ASC
 IC-39892 Col (TS) Kanta Prasad, Inf
 IC-39935 Col (TS) Satbir Singh, Inf
 IC-40816 Col (TS) Vishwanath Karad, Inf
 IC-40936 Col Chandran N P, ASC
 IC-41062 Col (TS) Mudaliar Suresh Sunderam, EME
 IC-41221 Lt Col Tomy Mani, AC
 IC-41331 Lt Col Prasad PS, Inf
 IC-41342 Lt Col Sasimohan TV, Arty
 IC-41353 Lt Col Anil Kumar, Inf
 SL-3309 Col Rajinder Singh Cheema, APTC
 SL-3652 Lt Col Paulose KP, RO
 SL-3681 Lt Col Ikkurti Madanamohan Rao, EME
 SL-3742 Lt Col Kunju Kunju John, Sigs
 SL-3780 Lt Col Gurmit Singh, RO
 SL-3817 Lt Col Satnam Singh, EME
 SL-3935 Lt Col Sarkamar Singh, QM
 SL-3941 Lt Col Shelke Sahebrao Parwati, EME

SL-4027 Lt Col Sasidharan Nair PG, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2009 (AN).

Pers No., Rank, Name & Arms

IC-30806 Col Harinder Singh Grewal, AC
 IC-31095 Col Dinesh Chandra Tewari, AOC
 IC-31096 Col Samar Vijay Singh, Inf
 IC-31192 Col (TS) Jay Mario Rebello, Inf
 IC-31728 Col Parappil Madhavan, Inf
 IC-31799 Col (TS) Dil Aftab Khan, AAD
 IC-31805 Col Gulshan Sahdev, Engr
 IC-31845 Col (TS) Narrinder Kumar Gahlot, AOC
 IC-31855 Col (TS) Pramod Kumar Sharma, Arty
 IC-34068 Col Lallan Shankar Tewary, Arty
 IC-34120 Col Shashank Mehta, Inf
 IC-34467 Col (TS) Mohan Prasad Nanda, AAD
 IC-34525 Col (TS) Tejendra Singh, AAD
 IC-34547 Col (TS) Rakesh Kumar Soni, Inf
 IC-34611 Col Kailash Dutt, Arty
 IC-34906 Col Jaspal Singh Gill, Arty
 IC-34951 Col (TS) Mohan Sadashiv Salunke, Inf
 IC-35309 Col Lashkar Singh Randhawa, Arty
 IC-35356 Col (TS) Kishore Singh Bisht, Inf
 IC-36734 Col (TS) Tejinder Pratap Singh Cheema, AC
 IC-36883 Sunil Kumar Lohani, Sigs
 IC-36955 Col Prabhat Ranjan, Arty
 IC-36990 Col Indra Mani Pathak, Engr
 IC-37108 Col (TS) Bahadur Singh, ASC
 IC-37141 Col (TS) Sunil Kumar Gupta, Inf
 IC-37145 Col (TS) Inder Pal Kohli, ASC
 IC-37243 Col Julius Frederick, Arty
 IC-37269 Col (TS) Krishna Pal Singh, ASC
 IC-37439 Col (TS) Jasbir Singh, AAD
 IC-37493 Col (TS) Vinod Manchanda, AC
 IC-38245 Col (TS) Dinesh Chandra, Engr
 IC-39891 Col (TS) Rameshwer Lal Bijarania, AAD
 IC-40087 Col (TS) Yohannan I, Arty
 IC-40369 Lt Col Lal Bahadur Khattri, Inf

IC-41051 Col (TS) Chandra Prakash Mishra, Sigs

ARMY BRANCH

IC-41315 Col (TS) Ishwar Singh, Inf

CORRIGENDA

IC-41383 Col (TS) Shiv Prasad Maurya, Inf

No. 100, dated 8th February 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

IC-41418 Col (TS) C Sukumar Raju, ASC

REGULAR ARMY

SL-2650 Col (TS) Adhip Majumdar, APTC

PERMANENT COMMISSION

SL-3110 Lt Col Hoshiar Singh, QM

Major to be Lt Col

SL-3409 Lt Col KS Yohannan, EME

The date of promotion in respect of Suman Soni (MR-06492-A), AMC at the Gazette notification published on 14 Dec 2002 is amended as follows :—

SL-3576 Lt Col Vijayan KT, EME

For : with effect from 09 Sep 2002

SL-3611 Lt Col Krishan Dev, Sigs

Read : with effect from 09 Mar 2002

SL-3640 Lt Col Hardev Singh, EME

Capt to be Major

SL-3641 Lt Col Jannu Krishna Murthy, Engrs

The date of promotion in respect of Rajeev Deo (MS-13620-P) (MR-08497-X), AMC at the Gazette notification published on 08 Dec 2007 is amended as follows :—

SL-3674 Lt Col Joseph OJ, EME

For : with effect from 23 Jun 2003

SL-3741 Lt Col Vishwanath Tulsiram Kalamkar, Sigs

Read : with effect from 23 Dec 2002

SL-3807 Lt Col S Nedumchezhiyan, RO

SL-3868 Lt Col Naubahar Singh, Sigs

SL-3920 Lt Col Kulvir Singh, Sigs

SL-3974 Lt Col Sat Pal Singh, APTC

RC-1061 Maj Shiv Vijay Singh, EME

JAYANTA CHAKRABARTY

Dy Dir

MS-7A

for Military Secy

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)